

PAISALO

EASY LOAN आसान लोन

Date: September 6, 2022

The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
25th Floor P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai -400 001
SCRIP CODE : 532900 (Equity)
959759 (Debt)

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai -400 051
SCRIP SYMBOL : PAISALO

SUB.: Publication of Notice of 30th Annual General Meeting in Newspapers

Dear Sir/Madam,

Please find attached herewith the copy of Newspapers in which the Notice of 30th Annual General Meeting of the Members of the Company was published on September 6, 2022.

We request you take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Paisalo Digital Limited

MANENDRA
SINGH

Digitally signed by MANENDRA
SINGH
Date: 2022.09.06 15:31:03 +05'30'

(Manendra Singh)
Company Secretary

Encl. As above

PAISALO DIGITAL LIMITED

Registered Office: CSC, Pocket 52, Near Police Station, CR Park, New Delhi - 110 019. Phone : + 91 11 4351 8888. Email: delhi@paisalo.in

Head Office: Block 54, First Floor, Sanjay Place, Agra - 282 002. Phone : +91 562 402 8888. Email: agra@paisalo.in

Mumbai Office: 262, Solitaire Corporate Park, Andheri East, Mumbai 400 093. Phone: +91 22 4228 8888. Email: mumbai@paisalo.in

CIN: L65921DL1992PLC120483

www.paisalo.in

अर्थ: समाजस्य न्यासः

SMS Loan to 5757 5007 | Give a Missed Call to 85 85 85 5757 | Toll Free 85 85 85 4848

Bank of Baroda PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION
Appendix-II-A & IV-A [See provision to rule 6(2) & 6(6)]
Sale notice for sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 6(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised officer of Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "What is there is", and "without any recourse basis" on 29.06.2022, for recovery of following mentioned outstandings due to the secured creditor from below (mentioned name of the Borrowers and Guarantors). The Descriptions, reserve price and earnest money deposit of the respective properties have been given below.

Date of E-Auction: 18.10.2022 Time: 02.00 PM to 6.00 PM and Last Date of Submission of EMD: 17.10.2022 upto 4:00 PM

S. No.	Name of the Authorised Officer & Branch	Name of the Borrower/ Guarantor	Date of Demand Notice U/s 13(2) and Present O/s Amount	Description of the Secured Asset Including name of the Property owner	Date of Possession Type of Possession	Reserve Price EMD Amount Minimum Increment Amt.
1.	Anuj Sharma industrial area Bhiwadi Bhiwadi Mob: 8094018443	M/s Agarwal Welding and Hardware and its prop. Mrs. Sunita Dhona and its Guarantor Mr. Sunit Gupta	20.01.2022 Rs 1862211.54 + un applied interest+ Other Charges	Flat No. B-601, Block-B, 6th floor, Sky View Apartment, Vasundhara Nagar, Bhiwadi, Dist.-Alwar, Rajasthan-301019 Admeasuring area 1522.00 Sqft. in the name of Mrs. Sunita Dhona W/o Mr. Dinesh Kumar Dhona. Bounded by:- East: Open to Ground Floor, West: Stairs & Lift, North: Open to Ground Floor, South: Corridor or Flat No. 602.	29.06.2022 Physical	Rs. 20.54 Lakh Rs. 2,05,400/- Rs. 10,000/-

For detailed terms and conditions of the auction, please refer to the link provided in <https://ibapi.in> and <https://www.bankofbaroda.com>, Bank of Baroda, Secured Creditor's website.
Date: 05.09.2022 Place : Alwar
Authorised Officer, Bank of Baroda

Form No. 5 Debts Recovery Tribunal, Lucknow
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

O.A. No. 160 / 2022
(Summons to Defendant under Sub Section(4) of Section 19 of the Act read with Rule 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rule, 1993) in the matter of
PUNJAB NATIONAL BANK
VersusApplicant
Smt. Gauri Budhiraja & Anr.Defendant

1. Smt. Gauri Budhiraja W/o Sh. Vishesh Bahal, R/o H. No. KF125, Kavi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201002. Also at: C-159, 1st Floor, Purva Ismaile Khan, Turab Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001.
2. Sh. Sunil Kumar S/o Sh. Diwan Chand, R/o 193-B, Turab Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001.

In the above noted application, you are required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 07-10-2022 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of this Tribunal on 26th day of July, 2022
by order of the Tribunal Registrar
Debts Recovery Tribunal Lucknow

NILACHAL REFRACTORIES LIMITED
CIN: L26939OR1977PLC000735
30, J.L. Nehru Road, Kolkata – 700016, West Bengal
Ph.: 033 – 224 99511

NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS 45th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND INFORMATION ON E-VOTING

The 45th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held through Video Conferencing (VC)/(OAVM) Other Audio-Visual Means on Wednesday, 28th September, 2022 at 12:30 P.M. The notice of the AGM will be available on the Company's website at www.nilachal.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE limited and CSE limited at www.bseindia.com and www.cseindia.com and also on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com. The manner of e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and who have not registered their emails is provided in the notice of the AGM. Manner of Registering for those shareholders whose details are not updated with the Company/Depositories): Shareholders are requested to send the following details to the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. S.K. Infosolutions Pvt. Ltd preferably mail at skcdiip@gmail.com: Full Name, Address, Email Address, Mobile No., No. Of Shares held, copy of Share Certificate, pan and aadhar self attested.

For Nilachal Refractories Ltd Sanjib Singh (Company Secretary)
Date: 05 September 2022

NOTICE

NOTICE is hereby given that shares certificate No 21527 for 980 Equity Shares of Rs. 2/- (Rupees 2/-only) each bearing distinctive Nos 2563366 to 2563855 & 89415026 to 89415515 of DCM SHRIRAM LTD. Registered in the name of Ripan Kumar has been lost has applied to the Company to issue Duplicate Certificate. Any person who has any claim in respect of the said Shares Certificate should lodge such claim with the Company at its Registered Office 2ND Floor, (West Wing) Worldmark 1, Aerocity New Delhi South West Delhi DL 110037 IN within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Duplicate Shares Certificate.

Get insights from wherever you are

The ALL-NEW Business Standard App
Making Devices Smart, Insight Out.

The Business Standard Morning show New episodes at 8am, Monday to Friday

Daily market insights Get detailed analysis and updates on the share market

Dark mode Introducing dark mode for easy reading

Go offline Online. Offline. Always. Stay connected, anytime.

Read to me Listen on the move

Quick reads For when you don't have time

Download now from bit.ly/BS_app

Business Standard Insight Out

bsindia bsindia business-standard.com

पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank
CIRCLE SAstra CENTRE- NORTH DELHI
3RD FLOOR, VIKRANT TOWER, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI - 110008

POSSESSION NOTICE (For Immovable property/ies) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 12.04.2022 calling upon the borrower(s) Sh. Lokesh Kuma Arya S/o Sh. Anil Kumar Arya and Sh. Yogesh Kumar Arya S/o Sh. Anil Kumar Arya and Smt Veena Kumari W/o Sh. Anil Kumar Arya to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 27,27,769/- (Twenty seven lakhs twenty seven thousand seven hundred sixty nine only) as on 28.02.2022 with further interest until payment in full within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 on this 31st day of August of the year 2022.

The borrower in particular and the Public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. 27,27,769/- (Twenty seven lakhs twenty seven thousand seven hundred sixty nine only) as on 28.02.2022 with further interest until payment in full.

The Borrower's/Guarantor's/Mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Equitable Mortgage of C-327 A, Third Floor with roof rights, Gali No. 9, Majlis Park, Adarsh Nagar, Delhi – 110033
Date : 31-08-2022, Place : New Delhi Authorized Officer, Punjab National Bank

GOLDEN PROTEINS LTD.

NOTICE OF CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

NOTICE is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and in connection with the 50th Annual General Meeting of the Company Scheduled to be held at the C-2, Main Market, Vasant Vihar, New Delhi-110057 on Friday 30th September 2022 at 11.30 A.M. The Register of members and the transfer books will remain closed from 16th September 2022 to 30th September 2022 (both days inclusive)

Regd. Office : 2, Main Market, Vasant Vihar, New Delhi Date : 02/09/2022
By order of the Board of Directors (Sd/-) DIRECTOR

PAISALO PAISALO DIGITAL LIMITED
Regd. Off: CSC, Pocket 52, Near Police Station, CR Park, New Delhi-110019
Tel: +91 11 43518888 Web: www.paisalo.in CIN: L65921D1992PLC120483

NOTICE OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

In continuation of our notice dated September 1, 2022, Notice is hereby given that:

- The 30th Annual General Meeting (AGM) of Members of Paisalo Digital Limited will be held on Friday, September 30, 2022 at 2:30 P.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per relaxation provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circulars dated April 8 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and May 5, 2022 and SEBI vide its Circulars dated May 12, 2020 and May 13, 2022 without the physical presence of the Members at common venue.
- In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time read with aforesaid circulars, the Company on September 5, 2022, has completed the sending of Annual Report of the Company containing Notice of AGM along with Audited Standalone & Consolidated Financial Statements for the financial year ended March 31, 2022 and reports of the Auditors and Board, to Members whose names have appeared in Register of Members/Beneficial Owners as on August 26, 2022, through electronic mode whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of AGM and the Annual Report is also available on the Company's website www.paisalo.in.
- Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (Both Days inclusive) for the purpose of AGM and Equity Dividend, if approved by members at AGM.
- Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, rules framed thereunder and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with aforesaid circulars, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically during remote E-Voting period and also during the AGM on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-Voting facility for the AGM.
- The remote E-Voting period shall commence on Tuesday, September 27, 2022 from 9:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, September 29, 2022 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, September 23, 2022 may cast their vote electronically. The remote E-Voting module shall be disabled for the voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. The manner of E-Voting for the members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM.
- Any person who becomes Member of the Company after sending the email of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 23, 2022, may obtain the User ID and password by sending a request to NSDL by emailing on evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on the Company's website. If the Member is already registered with NSDL for E-Voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting their vote through remote E-Voting.
- The Members, who have not cast their vote through remote E-Voting can exercise their voting rights during the AGM through E-Voting facility. The Members who have cast their vote by remote E-Voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- The results of voting shall be declared not later than 3 days from the date of AGM and shall be placed on the Company's website i.e. www.paisalo.in and NSDL website www.evoting.nsdl.com.
- In case of any queries/grievances related to E-Voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote E-Voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 1800 1020 990/1800 224 430 or send a request to Ms. Soni Singh, Assistant Manager at evoting@nsdl.co.in Members may also write to Company Secretary of the Company at the E-mail ID - cs@paisalo.in.

By Order of the Board of Directors For Paisalo Digital Ltd. Sd/- Manendra Singh (Company Secretary)

Place : New Delhi Date : September 5, 2022

STUDDS
STUDDS ACCESSORIES LIMITED
CIN: U25208HR1983PLC015135
Registered Office: Plot No. 918, Sector 68, IMT, Faridabad-1221004
Phone No. 0129-4296500
E-mail: secretarial@studds.com, Website: www.studds.com

Notice of the 40th Annual General Meeting and E-voting information

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("the AGM") of Studds Accessories Limited will be held on Friday, September 30, 2022 at 4:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, (the Act) and Rules thereunder, including amendments thereunder read with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard from time to time ("MCA Circulars"), to transact the business as set out in the AGM Notice, without the physical presence of the members at a common venue.

- In compliance with the MCA Circulars, the Annual Report for Financial Year 2021-22 including the AGM Notice, Audited Standalone and Consolidated Financial Statements (along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached therewith), have been sent through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Registrar & Transfer Agent ("RTA") or the respective Depository Participant ("DPs"). Members may note that the AGM Notice and the Annual Report for financial year 2021-22 are also available on the Company's website at <https://www.studds.com/investor-relations> and on the website of RTA www.linkintime.co.in.
- The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited as the authorised agent for conducting of the AGM through VC/ OAVM facility and for providing electronic voting ("e-voting") facility to its members. The members may cast their votes through the remote e-voting and e-voting at the AGM in such manner as mentioned/ described in the notice of AGM.
- The Board has appointed CS Manish Kumar Partner of Manish K & Associates, Company Secretaries as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The result declared along with scrutinizers report shall be placed on website of the company i.e. www.studds.com.
- In terms of the MCA circulars, since the physical attendance of the members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the members under Section 105 of the Act, will not be available for the AGM.
- The business as set forth in the AGM Notice may be transacted through remote e-voting or e-voting at the AGM. The members may be informed that:
 - Date of dispatch of the Annual Report 2021-22 along with the AGM Notice e-mails: September 03, 2022.
 - Cut-off date for determining the eligibility of members for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/ OAVM facility and e-voting during the AGM: September 23, 2022 (as on closing business hours).
 - Record date for determining eligibility of members to receive final dividend for the financial year ended March 31, 2021, if approved at the AGM: September 30, 2022.
 - Date and time of commencement of remote e-voting: From 9.00 a.m. (IST) on September 27, 2022.
 - Date and time of end of remote e-voting: September 29, 2022, at 5:00 pm (IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 pm (IST) on September 29, 2022.
 - The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote is cast, the members shall not be allowed to change it subsequently.
 - Electronic Voting Event Number (EVEN): 220437.
 - Only those members, who will be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through e-voting facility.
- If the final dividend, as recommended by the Board of Directors, is approved at the AGM, payment of such dividend subject to deduction of Tax at Source ("TDS") will be made within the statutory time limit of 30 days.
- Any person, who acquires shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-off date, may obtain the User ID and Password by sending a request at secretarial@studds.com. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice of AGM for information purpose only.
- Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in AGM Notice. Members attending through VC/ OAVM facility, shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- In case of any queries, members may contact to RTA at email: enotices@linkintime.co.in or on - Tel: 022-4918 6000 or to Mr. Hitesh Wadhwa, Company Secretary, at email secretarial@studds.com or on Tel: 0129-4296500.
- Process of those members whose e-mail IDs are not registered with DPs/ RTA for procuring User ID and password and registration of e-mail IDs for e-voting for the resolutions set out in this notice:
 - In case shares are held in physical form, please provide Folio No., name of member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR card) by e-mail to secretarial@studds.com.
 - In case shares are held in demat form, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, Client master or copy of consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR card) to secretarial@studds.com.
- Members can register their e-mail IDs and Permanent Account Number ("PAN") as per the process:
 - Members holding shares in physical form: The members of the Company holding shares in physical form and who have not registered their e-mail IDs may get their e-mail IDs registered by writing at secretarial@studds.com along with self-attested scanned copy of PAN card.
 - Members holding shares in dematerialized form: The members are required to register their e-mail IDs, in respect of shares held in dematerialized form with their respective DPs by following the procedure as prescribed by them.

For Studds Accessories Limited Hitesh Wadhwa Company Secretary FCS-10907
Place : Faridabad Date : September 05, 2022

AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED
CIN: L67190DL1991PLC045857
Regd. Off: F-333, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020
Tel.: 011-43500700, Fax: 011-43500735
Website: www.avonmorecapital.in, E-mail ID: secretarial@almondz.com

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERRING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Thursday, 29th September, 2022 at 01:00 P.M. through Video Conferencing (Other Audio Visual Means ("VC/OAVM")). In compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the Act) and the SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the Listing Regulations) and all applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) for convening the General Meeting through VC/OAVM and Securities and Exchange Board of India (SEBI circulars), companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent alongwith the Annual Report including Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2022 to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. The Notice of 30th AGM is also available on the Company's website www.avonmorecapital.in, and on the website of Stock Exchanges www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 3rd September, 2022.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). E-voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e-voting period commences on Monday, 26th September, 2022 at 10:00 A.M. & end on Wednesday, 28th September, 2022 at 05:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Thursday, 22nd September, 2022. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company. Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Thursday, 22nd September, 2022 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beatairta@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. of September 28, 2022. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalair@gmail.com, Telephone Nos. 011- 29951281 or write an e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact 1800225533.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to Thursday 29th September, 2022 (Both days inclusive) for 30th Annual General meeting of Company.

For Avonmore Capital & Management Services Limited Sd/- Sonal Company Secretary & Compliance Officer
Place: Delhi Date: 05.09.2022

sidbi
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA
2nd Floor, Atma Ram House, 1, Tolstoy Marg, New Delhi- 110001

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that Tripathi Hospital Private Limited (Company), having its registered office at H-27, Sector-22, Noida- 201301, Uttar Pradesh was disbursed a financial assistance of Rs. 1,40,50,000.00 [Rupees One Crore Forty Lakhs and Fifty Thousand only] and four Funded Interest Term Loans for a cumulative amount of Rs. 5,34,522.00 [Rupees Five Lakhs Thirty Four Thousand Five Hundred Twenty Two only] from Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and due to non-payment of the outstanding loans/dues, the account has been classified as a Non-Performing Asset (NPA) by SIDBI on 08-01-2021. The Company had hypothecated certain movable assets placed/located at its hospital unit at Plot No. NH-1A, Sector-119, Noida- 201301 (Hospital) with SIDBI in respect of financial assistance availed, which includes but not limited to the following assets:

Sr. No.	Description of article
1	Generator Set
2	Air Conditioners and Electrical Fittings
3	Lab Equipments
4	Physio Instruments
5	Lift etc.
6	Plant and Machinery [Hospital instruments/bed]
7	MFA [medical gas pipeline]
8	MFA [ambulance]
9	MFA [Misc.]

The above list is not exhaustive and there are various other assets of the Company at Hospital such as various types of equipment, other machineries, spares tools, accessories, furniture, fixture and other miscellaneous assets on which SIDBI has first charge.

The Company and the public are hereby cautioned not to deal with the above-mentioned movable assets hypothecated in favour of SIDBI and any dealings with these assets will be subject to the charge of the SIDBI for an amount of Rs. 1,02,23,818.00 [Rupees One Crore Two Lakhs Twenty Three Thousand Eight Hundred and Eighteen only] as on 10.08.2022 and interest thereon along with cost and charges etc. SIDBI will take strict legal action against any person undertaking unauthorized or illegal or wrongful transfer/ purchase/ sale/ parting with possession of the above-mentioned movable properties.

Sd/-
Date: 06.09.2022 Authorised Officer
Place: New Delhi Small Industries Development Bank of India

Chola CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED
Corporate Office: No.2, Dare House, 1st Floor, NSC Bose Road, Chennai – 600 001.
Ajmer Branch Office: 2nd Floor, Plot No.9912, Bhanjiganj, Nasirabad Road, Railway Pulga Pass, Above Indian Bank, Ajmer – 305001 Contact No: Mr. Rohit Choudhary: 9799999888/ Gaurav Mishra: 9828379131

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 6 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagor (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Cholamandalam Investment and Finance Company Limited the same shall be referred herein after as Cholamandalam investment and Finance Company Limited. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction. It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website <https://chola-lap.procure247.com/>

Borrower(s)/Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the immovable Property	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Total Loan Outstanding	Place of Auction
LOAN ACCOUNT NO. X0HEBWE00001895060 and HE02BHWE0000009473. 1. Pukharaj Sankhla, 2. Muni Devi, 3. Prakash Sankhla, 4. Bhag Chand Ali are Resident at: Ward No. 4/0 Outside Of Suraj Pool Gate, Bijay Nagar Road, Near Shahu Vatika, Beawar, Ajmer, Rajasthan 305091. 5. Satyam Marbel And Kota Stone Industries, 6. M/s Satyam Marbel & Kota Stone Industries Add: Bijay Nagar Road, Sahu Vatika, Beawar, Ajmer, Rajasthan-305091.	11.04.2022 & Rs. 23,72,777.77 as on 07/04/2022 and interest and charges thereon	Residential Property H.No.7B situate at Bijay Nagar Road, Opp Subhash Udhyan, Beawar which is Measuring about 425.31 sqyds Four Bounded are as under East: Remaining part of Said Property 7C belonging to Hukmi Chand West: Bijay Nagar Road North: H.No.7A belong to Gorchan Ji South : Street & Property of Hukmi Chand	Rs. 60,00,000/-	Rs. 6,00,000/-	Rs. 22,97,148.97 as on 05-09-2022 and interest and charges thereon	2nd Floor, Plot No.9912, Bhanjiganj, Nasirabad Road, Railway Puliga Ke Pass, Above Indian Bank, Ajmer – 305001

● Date of Auction- 11-10-2022, 11.00 AM to 1.00 PM ● Last date for Submission of Bids: 10-10-2022 (up to 5.30 P.M)
● Date of Inspection of Property: 06-10-2022 and 07-10-2022 (10.00 A.M to 1.00. P.M) (In business Hours)

1. All Interested participants / bidders are requested to visit the website <https://chola-lap.procure247.com/> & <https://www.cholamandalam.com/auction-notices>. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact (Muhammed Rahees – 81240 00030), Ms. Procure247., Contact Mr. Alpesh BorisaCell No. 7046612345/ 9898056524., Email id: alpesh@procure247.com, suraj@tender247.com, parin@tender247.com
2. For further details on terms and conditions please visit <https://chola-lap.procure247.com/> & <https://www.cholamandalam.com/auction-notices> to take part in e-auction

THIS IS ALSO A STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 6(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002
Date: 06.09.2022 Place : Ajmer Sd/- AUTHORISED OFFICER, M/s Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

Chola CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED
Corporate Office: No.2, Dare House, 1st Floor, NSC Bose Road, Chennai – 600 001.
Chittoargarh Branch Office: Bakadia Complex, Near Bhagwati Hotel, 1st Floor, New Cloth Market, Chittoargarh-312001 Contact No: Mr. Rohit Choudhary: 9799999888/ Gaurav Mishra: 9828379131

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 6 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / Co-Borrower/ Mortgagor (s) that the below described immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Cholamandalam investment and Finance Company Limited the same shall be referred herein after as Cholamandalam investment and Finance Company Limited. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction. It is hereby informed to General public that we are going to conduct public E-Auction through website <https://chola-lap.procure247.com/>

Borrower(s)/Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the immovable Property	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Total Loan Outstanding	Place of Auction
LOAN ACCOUNT NO. X0HECHT00001796264 and HE02CHT00000014613 1. Ramesh Kumar Talreja, 2. Sunita Talreja, 3. Harish Kumar Talreja, 4. Reshma Talreja All are Resident at: 3, Mitha Ramji Ka Khedi, Pratap Nagar, Chittoargarh, Rajasthan - 312001. 5. Lajwanti Devi Talreja R/O Add.: 3, Meera Wanchanly, Pratap Nagar, Chittoargarh, Rajasthan-312001. 6. Salish Talreja, 7. Kalika Bakary (Through Proprietor Ramesh Kumar Talreja) Both are Resident at: H.No. 3, Ward No 14, Pratap Nagar, Miha Ram Ji Ka Khedi, Chittoargarh, Rajasthan-312001.	07-04-2022 & Rs. 27,53,865.25 as on 06-04-2022 and interest and charges thereon	Plot No.3, Measuring 2400 Sq. feet situated at Meetha Ram Ji Ka Khedi, Chittoargarh, Rajasthan. Bounded as under:- On or towards East by Road 20 feet. On or towards West by Road 20 feet. On or towards North by Plot No.2. On or towards South by Plot No.4.	Rs. 55,00,000/-	Rs. 5,50,000/-	Rs. 26,41,193.78 as on 29-08-2022 and interest and charges thereon	Bakadia Complex, Near Bhagwati Hotel, 1st Floor, New Cloth Market, Chittoargarh-312001

● Date of Auction- 11-10-2022, 11.00 AM to 1.00 PM ● Last date for Submission of Bids: 10-10-2022 (up to 5.30 P.M)
● Date of Inspection of Property: 06-10-2022 and 07-10-2022 (10.00 A.M to 1.00. P.M) (In business Hours)

1. All Interested participants / bidders are requested to visit the website <https://chola-lap.procure247.com/> & <https://www.cholamandalam.com/auction-notices>. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact (Muhammed Rahees – 81240 00030), Ms. Procure247., Contact Mr. Alpesh BorisaCell No. 7046612345/ 9898056524., Email id: alpesh@procure247.com, suraj@tender247.com, parin@tender247.com
2. For further details on terms and conditions please visit <https://chola-lap.procure247.com/> &

HDFC BANK We understand your world	
विशेष प्रचालन विभाग, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 1 अंसल क्लासिक टॉवर, ब्लॉक जे, राजीवी गाँडन, नई दिल्ली-110027 मांग सूचना – सर्फेकी अधिनियम, 2002 के नियम 13(2) के तहत	
एतद्वारा गाँव वीथी ऋणी, गारंटर(ओं) व निरोधीक(ओं) को सूचित किया जाता है जो एचडीएफसी बैंक से उनके द्वारा भी गई ऋण प्रतिक्रिया(ओं) के पुन-मूल्यान में दोषी रहे हैं और जिनके ऋण खाते 06.10.2021 को नोन-परफॉर्मिंग स्टेटस (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विवेकी परिसमर्पितियों को अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रतिक्रिया हित प्रवर्तन 2002 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा 13(2) के तहत 16.11.2019 को उनके अंतिम ज्ञापन पर व सूचनाएं जारी की गई थी लेकिन उनसे से कुछ को बिना कार्रवाई को प्रभावित कर दिया गया, अतः उन्हें इस संबंध में सूचनाएं सूचना को द्वारा सूचित किया जा रहा है।	
ऋणी का नाम: 1. सेनौरि एक्सपोर्ट्स इन्फो मालिक श्री शरद दीगारा को द्वारा जीएफ, एफएफ व एसएफ प्रचार, डब्ल्यूजैड-230, इंद्र पुरी-110012 नई दिल्ली	
गारंटर / निरोधीकों का नाम: 2. श्री शरद दीगारा पति श्री सुभाष चंद्र दीगारा, जीएफ, एफएफ व एसएफ प्रचार, डब्ल्यूजैड-230, इंद्र पुरी-110012 नई दिल्ली	
गारंटर / निरोधीकों का नाम: 3. श्रीमती राखी दीगारा, जीएफ, एफएफ व एसएफ प्रचार, डब्ल्यूजैड-230, इंद्र पुरी-110012 नई दिल्ली	
चल संपत्तियों का विवरण	
संपत्ति का विवरण	से संबंधित परिसंपत्ति
सभी वर्तमान व नवी स्वीकृत व बूक डेड्स पर विशेष प्रचार के द्वारा हाइपोथेकेशन	श्री शरद दीगारा व श्रीमती राखी दीगारा
अचल संपत्तियों का विवरण	
संपत्ति का विवरण	के स्वामित्व में
जीएफ, एफएफ व एसएफ प्रचार, डब्ल्यूजैड-230, इंद्र पुरी-110012 नई दिल्ली	श्री शरद दीगारा व श्री शरद दीगारा
सूचना की तिथि: 23 सितंबर, 2022	एनपीए की तिथि: 15 अप्रैल, 2019
नकारात्मक (01.06.2022 तक): रु. 5,81,75,791.51 (एनपीए करण्ड इक्वॉसिटी लाइव फिक्स्ड इन्वेंचर सार्व (सीआरएस) व अक्षयजाल एसेल क्रेडिट) 01.09.2022 से 14.09.2022 से 14.09.2022 प्रविष्टियों की दर पर ब्याज देय है व देयगोया है।	
एतद्वारा ऋणी और / या उनके गारंटर(ओं) / निरोधीक(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे 80 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का प्रस्ताव करने के लिए बंधवशतक हैं, अतःकाल ही पर सर्फेकी अधिनियम की धारा 13(2) उप-धारा (4) के तहत 60 दिनों की समीचीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।	
दिनांक: 06.08.2022 स्थान: नई दिल्ली एचडीएफसी बैंक लि., प्राधिकृत अधिकारी	

शुद्धिपत्र	
क्र.सं. छाता नं.- HL07000017, HL07000018, HL07000019, S000240236, S000240238, S000440480, S000241541, S000240081, S000240806, S000240807, S000240810, S000240811, S000240812, S000240859, S000240855, S000241435, S000241538, S000240814 और 8 संदर्भ में नियम 8(1) के तहत रिजॉल्यूटिडइजेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ विजयवर्ती इंस्टीट्यूट एस्ट, 2002 ("द एक्ट") के तहत दिनांक 25.06.2022 को कच्चे की सूचना के प्रकाशन के लिए शुद्धिपत्र	
दिनांक 25.06.2022 की कच्चा सूचना के प्रकाशन के संबंध में यह शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, जो सिक्वोरिटी इंस्टीट्यूट (एफकोसिमेंट) एस्ट, 2002 के अंतर्गत निम्नलिखित सुधार के लिए धारा 8(1) के तहत को इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा बिज़नेस स्टैंडर्ड - दिल्ली कवरर्स गुरुग्राम -इंग्लिश और बिज़नेस स्टैंडर्ड - दिल्ली कवरर्स गुरुग्राम - हिंदी दोनों में दिनांक 01.07.2022 को जारी किया था।	
दिनांक 25.06.2022 की कच्चे की सूचना में:	
1) के लिए:	
"हिमांड नोटिस दिनांक 12.03.2020 और 13.03.2020 "	
के रूप में रहे:	
"हिमांड नोटिस दिनांक 03.02.2022 "	
2) के लिए:	
"कच्चे की सूचना में दीए एंड टैबल में दिनांक 03.02.2020 के अनुसार बकाया राशि (रु.)"	
के रूप में रहे:	
"दिनांक 03.02.2022 के अनुसार बकाया राशि (रु.)"	
उपरोक्त समायोजनों में प्रकाशित दिनांक 25.06.2022 के कच्चे की सूचना का बाकी बाकी सार्वजनिक मान है और उपरोक्त सुधारों को दिनांक 25.06.2022 के कच्चे की सूचना के अहम हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।	
सही/	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गुरुग्राम	इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

शुद्धिपत्र	
क्र.सं. छाता नं.- HL07000017, HL07000018, HL07000019, S000240236, S000240238, S000440480, S000241541, S000240081, S000240806, S000240807, S000240810, S000240811, S000240812, S000240859, S000240855, S000241435, S000241538, S000240814 और 8 संदर्भ में नियम 8(1) के तहत रिजॉल्यूटिडइजेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफकोसिमेंट ऑफ विजयवर्ती इंस्टीट्यूट एस्ट, 2002 ("द एक्ट") के तहत दिनांक 25.06.2022 को कच्चे की सूचना के प्रकाशन के लिए शुद्धिपत्र	
दिनांक 25.06.2022 की कच्चा सूचना के प्रकाशन के संबंध में यह शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, जो सिक्वोरिटी इंस्टीट्यूट (एफकोसिमेंट) एस्ट, 2002 के अंतर्गत निम्नलिखित सुधार के लिए धारा 8(1) के तहत को इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा बिज़नेस स्टैंडर्ड - दिल्ली कवरर्स गुरुग्राम -इंग्लिश और बिज़नेस स्टैंडर्ड - दिल्ली कवरर्स गुरुग्राम - हिंदी दोनों में दिनांक 01.07.2022 को जारी किया था।	
दिनांक 25.06.2022 की कच्चे की सूचना में:	
1) के लिए:	
"हिमांड नोटिस दिनांक 12.03.2020 और 13.03.2020 "	
के रूप में रहे:	
"हिमांड नोटिस दिनांक 03.02.2022 "	
2) के लिए:	
"कच्चे की सूचना में दीए एंड टैबल में दिनांक 03.02.2020 के अनुसार बकाया राशि (रु.)"	
के रूप में रहे:	
"दिनांक 03.02.2022 के अनुसार बकाया राशि (रु.)"	
उपरोक्त समायोजनों में प्रकाशित दिनांक 25.06.2022 के कच्चे की सूचना का बाकी बाकी सार्वजनिक मान है और उपरोक्त सुधारों को दिनांक 25.06.2022 के कच्चे की सूचना के अहम हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।	
सही/	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गुरुग्राम	इंडियावल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India	
सैक्टर-18 नोएडा शाखा	
परिशिष्ट-4 (नियम-8(1) देखें)	
कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)	
जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय अस्तित्वों का प्रतिबन्धक और पुनर्गठन तथा प्रतिबन्ध हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सार्वजनिक प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16.06.2022 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखनीय श्रीमति सीमा सिंह चौधान पत्नी श्री संजय सिंह चौधान (प्रा.प. मैसर्स-प्लोरा इन्टरनेशनल) को मांग नोटिस में वर्गीकृत करण के राशि रु. 01,57,80,121.08 (रुपये एक करोड़ सत्तान्ना लाख अर्थात् हजार एक सौ इक्कीस और आठ पैसे) को नोटिस दिए जाने को 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था। ऋणी द्वारा परामर्शित अथवा न करने पर ऋणी तथा आग जता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सार्वजनिक उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 के तहत शर्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.09.2022 को निम्नलिखित संपत्ति का कच्चा दे दिया है।	
विवेश रूप से ऋणी तथा आग तौर पर जना को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लोन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लोन-देन बैंक ऑफ इंडिया को देय धनराशि रु. 01,57,80,121.08 (रुपये एक करोड़ सत्तान्ना लाख अस्सी हजार एक सौ इक्कीस और आठ पैसे) और ब्याज सहित देन होगा।	
सूचित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं के ब्याज को अमानित किया जाता है।	
चल संपत्ति का विवरण	
सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण ब्याज स्टैंडर्ड, प्लॉट और पर्याप्तितियां जो मैसर्स फ्लोरा इन्टरनेशनल के नाम है जो ए-4/15, सैक्टर-80, फेस-2, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, सूची-201301 में स्थित है।	
दिनांक: 01.09.2022	प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नोएडा	बैंक ऑफ इंडिया

AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED	
CIN: L67190DL1991PLC045857	
Regd. Off.: F-333, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020	
Tel.: 011-43500710, Fax: 011-43500735	
Website: www.avnomorecapital.in, E-mail: secretarial@almondz.com	
NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERRING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM"), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION	
NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Thursday, 29th September, 2022 at 01.00 P.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the act) and the SEBI(Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended)(the Listing Regulations) and all applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) for convening the General Meeting through VC/OAVM and Securities and Exchange Board of India (SEBI circulars), companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent alongwith the Annual Report including Audited Financial Statements for the Financial Year ended 31st March, 2022 to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. The Notice of 30th AGM is also available on the Company's website www.avnomorecapital.in and on the website of Stock Exchanges www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 3rd September, 2022.	
The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). E-voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e-voting period commences on Monday, 26th September, 2022 at 10.00 A.M. & end on Wednesday, 28th September, 2022 at 05.00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Thursday, 22nd September, 2022. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company. Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Thursday, 22nd September, 2022 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beatalra@gmail.com to obtain the login id and password.	
Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of September 28, 2022. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members and the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.	
The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.	
In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal, Bittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalra@gmail.com, Telephone Nos. 011- 29961281 or write an e-mail at helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact 18002255533.	
Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is also hereby given that the Registrar of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to Thursday 29th September, 2022 (Both days inclusive) for 30th Annual General meeting of Company.	
For Avnomore Capital & Management Services Limited	
Sd/-	
Place: Delhi	
Date: 05.09.2022	
Company Secretary & Compliance Officer	

AVSIL INDUSTRIES LIMITED	
Regd. & Corp. Off: Unit No. 1001, 10th Floor, NDM-2, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi- 110034	
CIN: L18101DL2003PLC121698	
Contact No.: 011-47561234,	
Email: AVSL_PVC@AVSL.CO.IN Website: WWW.AVSL.CO.IN	

NOTICE OF THE 19TH ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE NOTICE	
The notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting("AGM") of the AVSL Industries Limited is scheduled to be held on Thursday, 29th September, 2022 at 11:30 AM at the registered office of the Company at Unit No. 1001, 10th Floor, NDM-2, Wazirpur District Centre, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi- 110034, to transact the ordinary business together with the annual report for the financial year 2021-2022. The 19 th Annual General Meeting will be held in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 and rules made thereunder Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/111 dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI), collectively referred as "Circulars".In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the financial year 2021-22 along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto will be sent to all the members whose email addresses registered with the Company Depositories and the electronic and physical dispatch of Annual Report to members has been completed on September 04, 2022. The copy of the annual report is available on the Company's website www.avsl.co.in .Notice is further given pursuant to the Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and accordance with the SEBI(LODR) Regulations requirements; the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Companies will remain closed from September 21, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and in particular and instructions for joining AGM.	
For and on behalf of	
AVSL Industries Limited	
Sd/-	
Sanjay Bansal	
Managing Director	
Date - 04/09/2022	
Place - Delhi	

द जम्बू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड	
खराब संपत्ति संविभाग प्रबंधन विभाग	
जोनल कार्यालय प्लाट सं. 132-134 सेक्टर-44, गुडगांव (हरियाणा) इंडिया	
जीएसटीडीएन: 06AAACT6167G12B फोन नं.: +91 (0)124-4718800	
ईमेल: iapmd.cfo@jkbmail.com वेबसाइट: www.jkbank.net	
कच्चा सूचना	
(अचल संपत्ति के लिए) [नियम 8(1) देखें]	

जबकि, अधोहस्ताक्षरी के पूर्ववर्ती न द जम्बू-कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सर्फेकी) अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शर्तियों में दिनांक 16.06.2022 को एक मांग सूचना जारी कर उधारकर्ता(ओं) सह बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रें) अर्थात्	
1.	मेसर्स आरुभी होम सजावट मालिक श्री राधे श्याम चतुर्वेदी पता-ए-93, नेद्री पिलर सं. 746, मोहन गाँडन उत्तर नगर, नई दिल्ली-110059
2.	श्री राधे श्याम चतुर्वेदी पुत्र श्री मानु प्रताप चतुर्वेदी निवासी फ्लैट सं. 292/293, चौथा तल, फेज-1, पॉकेट-1, सेक्टर -13, द्वारका , नई दिल्ली-110075 (उधारकर्ता/बंधककर्ता)
3.	श्रीमती रीता चतुर्वेदी पत्नी राधे श्याम चतुर्वेदी निवासी फ्लैट सं. 292/293, चौथा तल, फेज-1, पॉकेट-1, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
4.	श्री राजेश अहलावत पुत्र श्री दिलबाग सिंह निवासी फ्लैट सं. 292 पॉकेट सं. 1, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली-110075 (गारंटर)
5.	श्री सुभाष पुत्र श्री ब्रजेश निवासी 30 ए भूतल, सेटी एक्वेलेव, मोहन गॉडन, डी के मोहन गॉडन पश्चिम दिल्ली-110059. (गारंटर)
से सूचना में उल्लेखित राशि रुपये 45,54,122.51/- (रुपये पैंतालीस लाख चौवन हजार एक सौ बाईस और इय्यावन पैसे मात्र) दिनांक 3।05.2022 तक अधिक लागत और अन्य शुल्क आदि के साथ उक्त सूचना से 60 दिनों के अंतर्गत अमानित करने का कहा।	
उक्त उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद द्वारा उक्त उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम तौर पर जनाता को सूचित किया जाता है कि जे एण्ड के बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी यानी अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उस प्रदत्त शर्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर 02 सितंबर 2022 के दिन कच्चा कर दिया है।	
विशेष रूप से उक्त उधारकर्ता और आम तौर पर जनाता को संपत्ति से किसी भी प्रकार से कोई भी व्यावहार न करने से आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यावहार रुपये 45,86,342.51/- (रुपये पैंतालीस लाख छियासी हजार तीन सौ बयालीस और इय्यावन पैसे मात्र) की राशि के दिनांक 01.09.2022 तक भीयत के ब्याज, लागत आदि के साथ द जम्बू-कश्मीर बैंक-बिजनेस इन्फार्म 4-ए/1/42, पालम एक्सचेंज रामगढ़ चौक, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के प्रचार के अधीन होगा।	
उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्य पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को को छुड़ाया जा सके।	
अचल संपत्तियों का विवरण	
न्याय संतत बंधक संपत्ति धारक फ्लैट सं. 292/293, चौथा तल, फेज-1, पॉकेट-1, सेक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली श्री राधे श्याम चतुर्वेदी और श्रीमती रीता श्याम चतुर्वेदी के नाम	
दिनांक: 02.09.2022,	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली	द जम्बू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

एसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड	
सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744	
पंजीकृत कार्यालय: 202, दूसरा तल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा मार्केट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019, फोन: 0129-4282375	
ई-मेल: cs@splimited.com , वेबसाइट: www.splimited.com	

31वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना जो अलग से परिभाषित की जायेगी, में यथावधि वित्ति व्यवासायों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिष्ठित एवं विनियम बंद (सेबी) / सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं (रजलओआरए), विनियमनवली, 2015, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमपीए") और सेबी द्वारा जारी लाना, परिचयों के साथ पठित, (संयुक्त रूप से "संबंधित परिचय" कहा गया है) के सभी धारा प्राधान्यों के अनुपालन में एएसवीएल इंस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएफ: L74899DL1991PLC062744) के शेयरधारकों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा को सूचित किया जाता है।	